

UP: एक ही ट्रेन में दो बार छापा मार कर 20 लाख की विदेशी सिगरेट पकड़ी

लखनऊ प्रमुख संवाददाता | Mon, 18 Feb 2019

पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश की सीमा से तस्करी कर लायी जा रही विदेशी सिगरेट कस्टम ने पकड़ी है। इसके अलावा बांग्लादेश में निर्मित विदेशी ब्रांड के कपड़े भी कस्टम ने जब्त किए हैं। यह माल डिब्रूगढ़-जालन्धर एक्सप्रेस से लाया जा रहा था। लखनऊ के स्टेशन पर रात दो बजे छापा मार कर ट्रेन में जा रहे पैकेटों को उतारा गया। कस्टम ने एक ही ट्रेन में दो बार छापा मारा।

यह पूरी कार्रवाई कस्टम कमिश्नर वीपी शुक्ला के निर्देश पर हुई। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी। डिप्टी कमिश्नर चंचल तिवारी ने बताया कि सूचना थी कि ट्रेन संख्या 15903 में विदेशी कपड़े तस्करी कर लाए जा रहे हैं। इनको गोरखपुर में उतारा जाएगा। इस पर गोरखपुर की कस्टम टीम ने ट्रेन को रोक कर कोच में छापा मारा और 10 लाख रुपए के ब्रांडेड विदेशी कपड़े जब्त किए। इसके कुछ घंटे बाद सूचना मिली की इसी ट्रेन के एसएलआर कोच में सिगरेट भी अवैध रूप से जा रही हैं। इनको दिल्ली में उतारा जाना है। इस पर संयुक्त आयुक्त प्रदीप सिंह सेंगर, अधीक्षक राकेश कुमार पाण्डेय, जसवंत कुमार की टीम लखनऊ स्टेशन पर पहले ही पहुंच गई। आरपीएफ और पार्सल अधीक्षक को भी साथ ले लिया गया लेकिन उनको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म नम्बर चार पर रुकी उसे घेर लिया गया। कोच से सिगरेट के पैकेट उतारे गए। कोरिया निर्मित 'ऐसेलाइट' सिगरेट के सैकड़ों डिब्बे ट्रेन से उतार कर कब्जे में लिए गए। रविवार की देर शाम तक बरामद कपड़ों और सिगरेट की कीमत का आकलन हो रहा था।

30 दिन में एक करोड़ रुपए की सिगरेट जब्त

चंचल तिवारी की टीम ने 30 दिन में एक करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद की है। हर बार विदेशी ब्रांड की सिगरेट बांग्लादेशी की सीमा के रास्ते भारत पहुंचाई गई। कस्टम के अनुसार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में इन सिगरेटों की बहुत मांग है। वहां चोरी छिपे मनमानी कीमत पर इसकी बिक्री हो रही है।

रेलवे की पार्सल व्यवस्था पर उठा सवाल

कस्टम की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर रेलवे की पार्सल व्यवस्था पर सवाल उठा है। रेलवे की इस व्यवस्था में माल बुक कराने वाले की कोई आईडी जमा नहीं होती। न ही उतारने वाले की होती है। कोई किसी भी नाम से पार्सल बुक करा सकता है। क्या माल जा रहा है यह भी जांच नहीं होती। ऐसे में तस्कर इस व्यवस्था का आसानी से फायदा उठा रहे हैं।